



अहमदाबाद में गत चैम्पियन मुंबई इंडियंस की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद खत्म हो चुकी है

लेकिन अब टीम आज यहां राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ होने वाले आईपीएल मैच में उलटपेठ करने पर नगाह लगा होगी

वहीं राजस्थान की टीम शीर्ष चार में अपना स्थान मजबूत करने का लक्ष्य बना होगी। राजस्थान 11 में से सात मैचों में जीत से अंकतालिक में तीसरे स्थान पर है। शुरुआती चरण की चैम्पियन टीम उम्मीदों के अनुरूप प्रदर्शन कर रही है जबकि टीम में स्टार खिलाड़ी मौजूद नहीं है लेकिन टीम की सफलता में इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन का काफी योगदान रहा है।

मुंबई ने 10 मैचों में केवल तीन में जीत दर्ज की है और तालिक में नीचे से दूसरे स्थान पर है और उसका प्रदर्शन गत चैम्पियन जैसा नहीं रहा। हालांकि राजस्थान के पहिले मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स से पराजय का मुंह देखना पड़ा। जिसमें उनकी बल्लेबाजी कमजोरियां उजागर हो गई थीं। कप्तान शेन वॉटसन के अर्धशतक को छोड़कर शीर्ष क्रम में से कोई भी बल्लेबाज महत्वपूर्ण योगदान नहीं दे सका, जिससे चेन्नई ने उन्हें छोटे स्कोर पर रोक दिया और आसानी से इसे हासिल कर लिया।

स्टीवन स्मिथ, कपूण नायर और अजकिश राहाणे जैसे खिलाड़ी कुछ महत्वपूर्ण नहीं कर सके लेकिन अब उनकी नगाहें मुंबई के खिलाफ आक्रामक प्रदर्शन करने पर लगी होंगी जिसने पहिले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को हराया था।

मुंबई का इस जीत से थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ा है। उनके लिए बल्लेबाजी में दिन अच्छा रहा जिसमें लेंडिसि समिन्स और अम्बाती रायडू ने अर्धशतकीय पारियां खेलीं। हालांकि कप्तान रोहित शर्मा टूर्नामेंट में नरंतर फॉर्म हासिल नहीं कर पा रहे हैं, जो शायद टीम के इस सत्र में वफिल होने का बड़ा कारण दिखाता है।

गेंदबाजी में दोनों टीमों लगभग बराबरी पर है, दोनों टीमों इस साल पहली बार एक दूसरे के खिलाफ खेल रही हैं। मुंबई में श्रीलंकाई लसथि मलिंगा जैसा स्टार तेज गेंदबाज मौजूद है जो सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले गेंदबाजों में 16 विकेट लेकर तीसरे स्थान पर है।

राजस्थान में ऐसा कोई बल्लेबाज नाम नहीं है, हालांकि 42 वर्षीय प्रवीण ताम्बे ने अपने प्रदर्शन से खुद को साबित किया है। वह 15 विकेट चटककर गेंदबाजों की सूची में अभी चौथे स्थान पर है।

{loadposition user13}

(भाषा)